

तुरंत रिलीज के लिए

## **ब्रैम्पटन को ग्लोबल कोवनेंट ऑफ मेयर्स फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी शोकेस सिटीज पायलट प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, लोकल जलवायु संबंधी कार्रवाई में लीडर के तौर पर सम्मानित किया गया**

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (3 फरवरी, 2021) – ब्रैम्पटन, कैनडा की उन 25 म्युनिसिपल्टीज में से एक है, जिसने ग्लोबल कोवनेंट ऑफ मेयर्स फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy) (GCoM) शोकेस सिटीज पायलट प्रोजेक्ट पूरा किया है। यह, लोकल जलवायु संबंधी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने का एक-वर्षीय तीव्र प्रोग्राम है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने अपने जलवायु संबंधी प्रयासों के परिणामस्वरूप, मिटीगेशन बैज (Mitigation Badge) हासिल किया है।

मिटीगेशन बैज, उन शहरों को दिया जाता है, जो अपने समुदाय में ग्रीनहाउस गैस प्रयोग की इन्वेंटरी पूरी करते हैं, निकासी लक्ष्य तय करते हैं और उनका एक मंजूरी प्राप्त राहत प्लान होता है, जैसे ब्रैम्पटन का [कम्युनिटी एनर्जी एंड एमिशन रिडक्शन प्लान \(सी.ई.ई.आर.पी.\) \(Community Energy and Emissions Reduction Plan\) \(CEERP\)](#)।

ब्रैम्पटन को अगस्त 2019 में, GCoM कैनडा (GCoM Canada) के नेतृत्व में, पहले शोकेस सिटीज (Showcase Cities) दल से जुड़ने के लिए चुना गया था। जिसमें शहर को, तकनीकी सहायता, ट्रेनिंग, खास नेटवर्किंग अवसरों सहित, लोकल स्तर पर जलवायु संबंधी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मुफ्त सहायता और जलवायु संबंधी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, टूल्स और संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हुई थी।

GCoM के प्रति सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की प्रतिबद्धता, ब्रैम्पटन को बहुत बड़े ग्लोबल अलाइंस से जोड़ती है, जो दुनियाभर के 800 मिलियन से अधिक नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह महाद्वीपों के, 10,000 से अधिक शहरों और लोकल सरकारों की प्रतिज्ञाओं पर आधारित, सिटी की जलवायु संबंधी लीडरशिप के लिए प्रतिबद्ध है।

GCoM कैनडा, फेडरेशन ऑफ कॅनेडियन म्युनिसिपल्टीज (एफ.सी.एम.) (Federation of Canadian Municipalities) (FCM), आई.सी.एल.ई.आई. -लोकल गर्वनमेंट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी (ICLEI-Local Governments for Sustainability), ग्लोबल कोवनेंट ऑफ मेयर्स सेक्रेट्रिएट (Global Covenant of Mayors Secretariat) और यूरोपियन यूनियन (European Union) से फंडिंग के सहयोग में, इंटरनेशनल अर्बन कोऑपरेशन प्रोजेक्ट (International Urban Cooperation Project) के बीच एक सहयोग है।

### **लिंक**

- [ब्रैम्पटन को 25 कॅनेडियन म्युनिसिपल्टीज में से ग्लोबल जलवायु संबंधी एक बड़ी पहलकदमी वाले तीव्र पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था \(Brampton among 25 Canadian municipalities selected for an intensive pilot with a leading global climate initiative\)](#)

- [कम्युनिटी एनर्जी एंड एमिशनस रिडक्शन प्लान \(सी.ई.ई.आर.पी.\) \(Community Energy and Emissions Reduction Plan\) \(CEERP\)](#)
- [ग्लोबल कोवनेंट ऑफ मेयर्स \(Global Covenant of Mayors\)](#)

## हवाले

“ब्रैम्पटन को इस पायलट प्रोजेक्ट में हिस्सा लेकर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तौर पर लोकल जलवायु संबंधी कार्रवाई में लीडर के तौर पर सम्मानित किया गया है। शोकेस सिटीज पायलट प्रोजेक्ट पूरा करने वाली 25 म्युनिसिपल्टीज में से एक होने पर हमें गर्व है। हम कैंनेडा के जलवायु संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने, ग्रीनहाउस गैस निकासियों को कम करने और ग्लोबल जलवायु संबंधी बदलाव पर बुनियादी तौर पर कार्रवाई करने के लिए, स्थिरता और लो-कार्बन समाधानों के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

- *पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“हम ब्रैम्पटन में जलवायु संबंधी पहलकदमियों का रास्ता बना रहे हैं और हमारे कार्बन फुटप्रिंट पर वास्तविक प्रभाव डाल रहे हैं। सी.ई.ई.आर.पी. के द्वारा, हम बिल्डिंगों का पुनर्निर्माण करते हुए, अधिक ग्रीन ट्रांज़िट नेटवर्क और अधिक चलने योग्य पड़ोस बना रहे हैं। यह हमारे शहर के लिए महत्वपूर्ण और रोमांचक समय है। इस सम्मान के लिए GCoM का और उन सभी का धन्यवाद, जो अब तक इस बदलाव का हिस्सा रहे हैं।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है, जिसका लक्ष्य ब्रैम्पटन में ग्रीनहाउस गैस निकासियों को 2050 तक 80 प्रतिशत कम करना है। हमारे शानदार और परिवर्तनशील सी.ई.ई.आर.पी. में, अधिक साफ ऊर्जा पैदा करते हुए, ब्रैम्पटन के ट्रांज़िट नेटवर्क, ट्रेल्स और बाइक इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को विकसित करते हुए, ऊर्जा प्रभावी घरों और बिल्डिंगों के लिए लक्ष्य शामिल हैं। शोकेस सिटीज पायलट प्रोजेक्ट को पूरा करना, जलवायु संबंधी कार्रवाई के इस सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।”

- *डग विलेन्स (Doug Whillans), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6; ग्लोबल कोवनेंट ऑफ मेयर्स फॉर क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी में ब्रैम्पटन के प्रतिनिधि; मेम्बर, सी.ई.ई.आर.पी. कम्युनिटी टास्क फोर्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी का स्टाफ, जलवायु संबंधी कार्रवाई में म्युनिसिपल लीडर के तौर पर प्रभाव डालने के लिए, स्थिरता, लो-कार्बन समाधानों और ब्रैम्पटन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सहयोगात्मक, आगे बढ़ने वाली सोच रखते हैं और ग्रीन सिटी के तौर पर ब्रैम्पटन के सफर के लिए समर्पित हैं।”

- *डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“म्युनिसिपल्टीज, बिल्डिंगों के पुनर्निर्माण से लेकर ग्रीन ट्रांज़िट फ्लीट्स तक—लो-कार्बन समाधानों का रास्ता बना रही हैं। कैंनेडा की आधी जी.एच.जी. निकासियों को प्रभावित करने के साथ, लोकल समाधानों को बढ़ाना, कैंनेडा के जलवायु संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। हम, जलवायु संबंधी बदलाव के प्रभावों से निपटने में सीधी कार्रवाई करने और अपनी ग्रीनहाउस गैस निकासियों को कम करने के लिए ब्रैम्पटन की सराहना करते हैं।”

- *गार्थ फ्रिज़ल (Garth Frizzell), एफ.सी.एम. प्रेजिडेंट*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)